

Dated: July 25, 2024

The Manager
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001
Scrip Code: 540750

The Manager National Stock Exchange of India Ltd Listing Department Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051 Symbol: IEX

<u>Subject: Submission of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter and year ended June 30, 2024.</u>

Dear Sir/Madam,

This is to inform that the Company has published Financial Results in newspaper, pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Please find enclosed copies of newspaper results published in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) on July 25, 2024.

The above information will also be made available on the website of the Company: www.iexindia.com

You are requested to take the above information on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Indian Energy Exchange Limited

Vineet Harlalka CFO, Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS-16264

Encl: as above

Vikas Telecom Private Limited

Registered Office: Royal Oaks, Embassy Golflinks Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071

Tel: +91 80 4722 2222 | F: +91 4722 2223 | CIN: U64202KA1992PTC083998

E:compliance@embassyofficeparks.com | W:https://www.embassyofficeparks.com/vtpl/

Statement of unaudited financial results for the guarter ended 30 June 2024 (all amounts in Do million unloss atherwise stated)

	For the	For the	For the
Particulars	quarter ended 30 June 2024 (Unaudited)	quarter ended 30 June 2023 (Unaudited)	year ended 31 March 2024 (Audited)
Total Income from Operations	1,789.00	1,807.75	6,975.95
Net Profit for the period/year before tax**	403.58	345.47	1,234.94
Net Profit for the period/year after tax	261.29	217.98	796.36
Total Comprehensive Income for the period / year (after tax)	261.29	217.98	796.36
Paid up Equity Share Capital (Equity shares of Rs.10 Each)	65.15	65.15	65.15
Reserves (excluding Revaluation Reserves)	(2,293.65)	(2,593.29)	(2,014.92)
Securities Premium Account	-	-	-
Networth	(2,228.50)	(2,528.14)	(1,949.77)
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	33,930.25	31,021.33	32,486.24
Outstanding Redeemable Preference Shares*	-	-	-
Debt equity ratio	(15.23)	(12.27)	(16.66)
Earnings per share (for continuing operations)			
-Basic and diluted (Rs. per share)	40.11	33.46	122.23
Capital redemption reserve*	-	-	-
Debenture redemption reserve	495.00	462.18	495.00
Debt service coverage ratio	2.44	2.28	2.26
Interest service coverage ratio	2.44	2.28	2.26

*Not applicable
**There are no exceptional and extraordinary items

- 1) The above is an extract of the detailed format of the unaudited quarterly financial results filed with BSE Limited pursuant to regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly financial results are available on BSE Limited website at www.bseindia.com and on Company's website at https://www.embassyofficeparks.com/vtpl/.
- 2) The unaudited financial results have been prepared in accordance with the requirements of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and other generally accepted accounting principles in India to the extent applicable.
- 3) For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can also be accessed on the Company's website at https://www.embassyofficeparks.com/vtpl/
- 4) The unaudited financial results for the quarter ended 30. June 2024 were adopted by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 24. July 2024

For and onbehalf of the Board of Directors of Vikas Telecom Private Limited

Aravind Maiya - Nominee Director DIN: 08481898 | Place: Bengaluru | Date: 24 July 2024



PG ELECTROPLAST LIMITED

(CIN L32109DL2003PLC119416)

Regd. Office: DTJ209, DLF Tower B, Jasola, New Delhi-110025 Tel-Fax: 011-41421439; Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.in

EXTRACTS OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS (Rs. In Lakhs)

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

						(,	.s. III Lakiis)
			STANDALO	NE	C	ONSOLIDAT	ED
SI. No.	Particulars	Quarter Ended June 30, 2024	Quarter Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2024	Quarter Ended June 30, 2024	Quarter Ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2024
1	Total Income from Operations	39122.09	37954.72	141,771.89	132,068.40	107,657.26	274,649.53
2	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	2,413.30	3,285.76	10,359.60	10,113.30	9,051.78	17,646.65
3	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	1,838.64	2,436.11	7,805.49	8,369.51	6,955.06	13,490.02
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,833.40	2,465.13	7,782.28	8,360.13	6,989.70	13,470.13
5	Equity Share Capital of Face Value Rs.1/- each*	2,609.78	2602.62	2602.62	2609.78	2602.62	2602.62
6	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31st March 2024			91,753.11			101,205.53
7	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Basic*	0.71	0.95	3.17	3.21	2.77	5.47
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) Diluted*	0.69	0.94	3.13	3.16	2.74	5.41

* On and from the record date of July 10, 2024, the equity shares of the Company have been sub- divided, such that 1 (One) equity share having face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, fully paid-up, stands sub-divided into 10 (Ten) equity shares having face value of Rs. 1/ - (Rupee One only) each, fully paid-up, ranking pari-passu in all respects. The Earnings per share for the prior periods have been restated considering the face value of Rs.1/- Rupee One only) each in accordance with Ind AS 33 - "Earnings per share"

Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the website of the Company at www.pgel.in.

Place: Greater Noida, U.P.

Sd/-Vikas Gupta

For PG Electroplast Limited





INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

Regd. Off.: 1st Floor, Unit No.1.14(a), Avanta Business Centre Southern Park, D-2, District Centre, Saket, New Delhi-110017, India CIN: L74999DL2007PLC277039, Website: www.iexindia.com, Ph. No.: +91 -0120-464 8100 Fax No.: +91 -0120-464 8115

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 20th June 2024

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30" June, 2024 Amo							
	Particulars -		Consolidated	I	Standalone		
SI		Quarter Ended		Year Ended	Quarte	Quarter Ended	
No.		30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024	30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024
			Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	15,447.01	12,736.81	55,084.84	15,434.59	12,727.56	55,078.16
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	12,791.97	10,080.67	46,614.33	12,491.14	9,909.33	45,684.90
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	12,791.97	10,080.67	46,614.33	12,491.14	9,909.33	45,684.90
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	9,644.02	7,582.98	35,078.26	9,342.32	7,413.91	34,144.06
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,610.03	7,562.83	35,099.93	9,308.33	7,393.76	34,164.66
6	Equity Share Capital	8,908.71	8,908.71	8,908.71	8,908.71	8,908.71	8,908.71
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	88,308.42	71,000.89	88,308.42	85,910.00	69,537.74	85,910.00
	Earnings Per Share* (of Re. 1/- each)						
8	- Basic:	1.08	0.85	3.94	1.05	0.83	3.84
	- Diluted:	1.08	0.85	3.94	1.05	0.83	3.84

*Not annualized for quarterly results

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financials Results for the Quarter ended 30 June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd (i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of the Company i.e. www.lexindia.com.

The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on 24 July 2024 For Indian Energy Exchange Limited

Satyanarayan Goel

Chairman & Managing Director

DIN: 02294069

THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURTIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")



Place: Noida

Date: 24 July 2024



ase scan this QR code to view the

Innovative superconditioning solutions

DIFFUSION ENGINEERS LIMITED

Our Company was incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 with the name "Diffusion Engineers Private Limited" pursuant to certificate of incorporation date: November 05, 1982 issued by Registrar of Companies, Maharashtra. Further, pursuant to resolutions passed by our Board of Directors at its meeting held on May 06, 1995 and by our Shareholders at the extra-ordinary general meeting held on May 17, 1995, our Company was converted into a public limited company. Consequently, our name was changed to "Diffusion Engineers Limited" and a fresh Certificate of Incorporation dated July 03, 1995, was issued by the Registrar of Companies, Karnataka at Bangalore. For details in relation to the change in our Registered Office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 269 of the Draft Red Herring Prospectus dated April 27, 2024 ("DRHP") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Registered Office: T-5 & T-6, Nagpur Industrial Area, MIDC, Hingna, Nagpur - 440016 Maharashtra; Telephone: +91 9158317943; Contact Person: Chanchal Jaiswal, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: cs@diffusionengineers.com; Website: www.diffusionengineers.com Corporate Identity Number: U99999MH2000PLC124154

OUR PROMOTERS: PRASHANT GARG, DR. NITIN GARG AND CHITRA GARG

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 9,847,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF DIFFUSION ENGINEERS LIMITED ("COMPAN OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PRÈMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION ("ISSUE"). THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR PURCHASE BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WOULD CONSTITUTE [•]% AND [•]%, RESPECTIVELY, OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL. OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●]% (EQUIVALENT TO ₹ [●] PER EQUITY SHARE) TO THE ISSUE PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND, EMPLOYEE DISCOUNT AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•] AND ALL EDITIONS OF [•] (WHICH ARE WIDELY CIRCULATED ENGLISH DAILY NEWSPAPER AND HINDI DAILY NEWSPAPER AND [•] EDITIONS OF THE MARATHI REGIONAL NEWSPAPER (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

NOTICE TO INVESTORS - CORRIGENDUM TO THE DRHP (CORRIGENDUM)

With reference to the DRHP. Bidders should note the following events which have occurred subsequent to the filing of the DRHP

- Dr. Renuka Garg aged 48 years, a Non-Executive Director of our Company has tendered her resignation with effect from July 23, 2024. Our Board of Directors through a resolution dated July 23, 2024, has taken on record the resignation of Dr. Renuka Garg as a Non-Executive Director
- Our Company has appointed Dr. Nitin Garg as an Additional Non-Executive Director on our Board through Board resolution dated July 23, 2024
- Set out below is certain relevant information pertaining to Dr. Nitin Garg, Additional Non-Executive Director of our Company.

Name, designation, address, occupation, period of directorship, current term, date of birth and DIN	Age (years)	Other Directorships
Dr. Nitin Garg	47	Indian Companies:
Designation: Additional Non-Executive Director		N K GARG Foundation
Address: Flat No. C 1/404, Paras Urbane Park, Rohit Nagar, Bawadiya Kalan,		Diffusion Hernon Adhesive and Sealant Private Limited
Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh – 462039.		Nowelco Industries Private Limited
Occupation: Professional		BTSG Awareness Foundation
Period of Directorship: Director since July 23, 2024		Cenos Health Care Private Limited
Term: Up to the Annual General Meeting to be held for FY 2023-24		Foreign Companies:
Date of Birth: September 17, 1976		• Nil
DIN: 08558736		

Brief Profile of Dr. Nitin Garg

Dr. Nitin Garg aged 47 years, is the Additional Non-Executive Director of our Company. He holds a bachelor's degree in medicine and a bachelor's degree in surgery from Nagpur University. He also holds a master's degree in general surgery from Manipal Academy of Higher Education, a master's degree in neurosurgery from National Institute of Mental Health and Neuro Sciences and has a Fellowship from the University of Pittsburgh. He is currently practicing as a neurosurgeon in Bhopal He has founded BTSG Awareness Foundation, a non-profit organization and CENOS Health Care Private Limited.

Details of Litigation involving Dr. Nitin Garg:

- Litigations against Dr. Nitin Garg
- 1. Criminal proceedings Nil 2. Civil proceedings - Nil
- 3. Outstanding actions by statutory and / or regulatory authorities Nil
- 4. Tax proceedings

counge		
Nature of the case	Number of cases	Total amount involved (in ₹ million)
Direct tax litigations	2	3.19
ndirect tax litigations	-	-
[otal	2	3 19

- ii. Litigations initiated by Dr. Nitin Garg
- 1. Criminal proceedings Nil
- Civil proceedings Nil

Please note that this Corrigendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges and the date hereof, and accordingly, does not include all the changes and / or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Corresponding changes will be made in "Our Management" and other relevant sections of the DRHP. The information in this Corrigendum supplements and supersedes the information provided in the DRHP to the extent inconsistent with the information in the DRHP and accordingly, relevant references in the DRHP stand updated pursuant to this Corrigendum. Information included in the DRHP will be suitably updated, including to the extent stated in this Corrigendum, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges. Potential Bidders should read this Corrigendum in conjunction with the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER



Place : Nagpur Date : July 24, 2024

UNISTONE CAPITAL PRIVATE LIMITED Mumbai – 400 059. **Telephone:** +91 022-46046494 Email: mb@unistonecapital.com

Investor grievance email: compliance@unistonecapital.com Contact Person: Brijesh Parekh; Website: www.unistonecapital.com SEBI registration number: INM000012449 CIN: U65999MH2019PTC330850

REGISTRAR TO THE OFFER

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India.

Telephone: 022-62638200; Facsimile: +91 22-6263 8299 Email: ipo@bigshareonline.com

Investor grievance email: investor@bigshareonline.com Contact Person: Babu Rapheal C.; Website: www.bigshareonline.com SEBI Registration Number: INR000001385; CIN: U99999MH1994PTC076534U

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **DIFFUSION ENGINEERS LIMITED** On behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Compliance Office

DIFFUSION ENGINEERS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated April 27, 2024 with SEBI and thereafter with the Stock Exchanges. The DRHF is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, websites of BSE and NSE i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company a www.diffusionengineers.com, the website of the BRLM i.e. Unistone Capital Private Limited at www.unistonecapital.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 39 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.





















वाद सं. : ओए/1510/2019 [विनियम-15 (I) (a)/16 (3) देखें] ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप—नियम

(२क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4) के तहत सम्मन पंजाब नैशनल बैंक

सेवा में, (1) मैसर्स आरएस इंटरनैशनल

एक पार्टनरशिप फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 71, लेदर कॉम्प्लेक्स, कपूरथला रोड, जालंधर, पंजाब में स्थित है

मैसर्स आरएस इंटरनैशनल

(2) खुशाल विरालिया

पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी 252/3ए, शिवलोकपुरी कंकरखेड़ा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) (3) पूनम विरालिया

पत्नी विनय कुमार निवासी 252/3ए, शिवलोकपुरी कंकरखेड़ा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) (4) विनोद कुमार

पुत्र रघुवीर सिंह निवासी 252/3ए, शिवलोकपुरी कंकरखेड़ा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

(5) मैसर्स कान्ति लॉज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 46 अमृत नगर, नई दिल्ली में स्थित है, इसके प्राधिकृत

निदेशक श्री विनय कुमार के माध्यम से

जबकि, **ओए/1510/2019** माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **12–03–2024** को

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण 😿. 5,08,69,103/— की ऋण वसूली के लिए आपवे विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी

i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर

ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तूत करें

iii) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निस्तारण के दौरान, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की

iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा सम्पित्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पटटा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय

के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे; v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा **दिनांक 30–08–2024** को **पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार** के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश अनपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 13-03-2024 को दिया गया सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 SHRIR 🍙 🦍 📗 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरा तल, ओमकारम टॉवर, HOUSING FINANCE हनुमान नगर-डी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 वेबसाइट : https://www.shriramhousing.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएचएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 22 जुलाई, 2024 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

कर्जदार का नाम एवं पता	माँग सूचना
ऋण संख्या SHLHJIPR0001049	09-05-2024
1. श्री अनिल गोयल पुत्र मदन लाल गोयल	07.05.2024 तक
(कर्जदार)	रु. 1406186/- (रुपये चौदह
240, शिव नगर-2, मुरलीपुरा, जयपुर- 302039	लाख छह हजार एक सौ छियासी
2. श्रीमती कविता गोयल पत्नी अनिल गोयल	रुपये मात्र)
(सह-कर्जदार)	ऋण खाता संख्या
240, शिव नगर-2, मुरलीपुरा, जयपुर- 302039	SHLHJIPR0001049 के
240, 1814 111(2, 3(1131), 1143(50205)	संदर्भ में, तथा यहां वर्णित

बंधक सम्पत्ति का विवरण

अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक

सांकेतिक कब्जा तिथि-22-07-2024

कर्जदार का नाम एवं पता

2. श्री रवि प्रकाश पुत्र संतोष शर्मा

वार्ड नं. 39. वैष्णव कॉलोनी. धोबियों की मस्जिद, बालाजी मंदिर

(सह-कर्जदार)

एनपीए तिथि-7-5-2024

संपत्ति-2

प्लॉट नं. 24, ग्राम-देवथला, पंचायत समिति- गोविंदगढ़, तहसील- चोम्, जिला जयपुर (राज.) 303804 का समस्त भाग, संपत्ति का क्षेत्रफल 345.33 वर्ग गज पूर्व-स्वयं की जमीन, पश्चिम- खुली जमीन, उत्तर- मधुसूदन का मकान और खुली जमीन, दक्षिण-स्वयं का मकान

प्लॉट नं. 25, ग्राम-देवथला, पंचायत समिति- गोविंदगढ़, तहसील चोम्, जिला- जयपुर (राज.) 303804 का समस्त भाग, संपत्ति का क्षेत्रफल 188.74 वर्ग गज पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- महेश शर्मा का मकान, उत्तर-स्वयं का मकान, दक्षिण- सड़क

	č.
ऋण संख्या SELHSIKR0000256	सूचना दिनांक-15-05-2024
एवं SLPHSIKR0000238	ऋण खाता संख्य
1. श्रीमती मेहरुनिशा पत्नी मोहम्मद अनवर	SELHSIKR0000256 के संदर्भ
(कर्जदार) मुगल हाउस, मोहल्ला	07-05-2024 को रु. 1234991/
इस्लामपुर, फतेहपुर रोड, सीकर, (राज.)	(रुपये बारह लाख चौंतीस हजार नौ र
332001	इक्यानबे मात्र) और ऋण खाता संख्य
2. श्री मोहम्मद अनवर पुत्र मो. याकूब	SLPHSIKR0000238 के संदर्भ
मुगल हाउस, मोहल्ला इस्लामपुर, फतेहपुर	07-05-2024 को रु. 4859161/
रोड, सीकर, (राज.) 332001	(रुपये अड़तालीस लाख उनसठ हज
(सह-कर्जदार)	एक सौ इकसठ मात्र) तथा साथ में ऊप
सांकेतिक कब्जा दिनांक- 22-07-2024	उल्लिखित ब्याज और आकस्मिक व्यय
गर्सामा दिसंबर ६ ६ २०२४	लागत आदि।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 11, वार्ड नं. 45, खसरा नं. 1909/35, सबलापुरा पावर हाउस के सामने, फतेहपर रोड. सीकर (राज.) का सम्पर्ण भाग. संपत्ति का क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज, पूर्व- प्लॉट नं. 10, पश्चिम- प्लॉट नं. 12, उत्तर- रास्ता, दक्षिण- मुकंदराम

विजास का मूल	
कर्जदार का नाम एवं पता	माँग सूचना
ऋण सं. STUHSIKR0000306	सूचना दिनांक-9-5-2024
एवं SBTHSIKR0000268	ऋण खाता संख्या STUHSIKR0000306
1. श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी रवि	के संदर्भ में 07-05-2024 को रु. 1565945/-
प्रकाश (कर्जदार)	(रुपये पंद्रह लाख पैंसठ हजार नौ सौ पैंतालीस
वार्ड नं. ३९. धोबियों की मस्जिद.	मात्र) और ऋण खाता संख्या
बालाजी मंदिर के पास. सीकर	SBTHSIKR0000268 के संदर्भ में
(राज.) 332001	07-05-2024 को रु. 886364/- (रुपये आठ
्र भी पनि पन्नाण पन मंत्रोष्ट पार्पा	लाख छियासी हजार तीन सौ चौसठ मात्र) तथा

के पास. सीकर (राज.) 332001 बंधक सम्पत्ति का विवरण

साथ में अब तक उल्लिखित ब्याज और

आकस्मिक व्यय, लागत आदि।

प्लॉट संख्या 321, पट्टा संख्या 20062, वार्ड संख्या 53, वैष्णव कॉलोनी, पिपराली रोड. सीकर (राजस्थान) का सम्पूर्ण भाग, संपत्ति का क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, पूर्व- प्लॉट संख्य 347 और 348 (शंकर लाल स्वामी का मकान), पश्चिम- रास्ता 15 फीट, उत्तर- प्लॉट . संख्या 320 (ताराचंद का मकान), दक्षिण- प्लॉट संख्या 322 (नरेश स्वामी का मकान)।

एतद्वारा यह सुचना व्यापक रूप से जनसामान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों के विधिक सांकेतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई भी व्यक्ति इस सूचना में सन्दर्भित उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य संव्यवहार/हस्तान्तरण द्वारा इस सुचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व लिखित सहमित के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

ह./-अधिकृत प्राधिकारी स्थान : सीकर तथा जयपर तिथि : 22.07.2024 श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड AXIS BANK LTD. गठित परिसंपत्तियाँ समुद्व. एविसस गवन, मूखंड 🗀 १८ वंदर ४, चतुर्थ तल, संकटर १२८, नोएखा (उत्तर प्रदेश) — २०१३०४, दूरमाप : ०१२०-०२१०८३३

सार्वजनिक सूचना

है कि उन्होंने एक्सिस बैंक लिमिटेड से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के प्रतिमुगतान तथा व्याज के मुगतान में चूक कर दी है तथा फलतः उक्त सुविधायें **30-08-2023** को अनार्जनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) में परियर्तित हो गयी हैं। इस संबंध में ऋणधारक / दृष्टिबंधककर्ता / गारंटरों / बंधककर्ताओं को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण पत्र पुरानिमा तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के अंतरीत सुवना दिनाकि 08-07-2024 उनके अंतिम ज्ञात पतों पर निर्गत की थी। हालाँकि कुछ पतों से सूचनायें पताधारक को प्राप्त हुये बिन ही वापस लौट आयीं थीं तथा इसीलिये ऐसे पताधारकों को वापस लौट आयी सूचना के बारे में एतद्द्वारा इस सार्वजनि

नगर-201301, उत्तर प्रदेश, 3. श्री अभिषेक दीपक (अतिरिक्त निदेशक) 203

मैसर्स एन के चेन्स प्राइवेट <u>05.07.2024</u> पता संख्या 1 तथा 2 द्वारा भुगतानयोग्य रु. 4,38,76,984. लिमिटेड ((ऋणधारक, बंधकधारक तथा (रुपये चार करोड अडतीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चौरार्स दृष्टिबंधककर्ता), अपने निदेशक : श्री अमित तथा इकतालिस पैसे मात्र) 30.06.2024 के अनुसार देय राशि गुरता के माध्यम से, तृतीय एवं चतुर्थ तल. वी–112, सेक्टर 02, नोएडा, गौतम बुद्ध सुविधा के संदर्भ में 01.07.2023 से अंतिम भुगतान की तिथि तक संपूर्ण भावी ब्याज तथा अन्य सभी शुल्कों के साथ औ वरा-201301, जतर अवस्त स्था विक्रमान पुरा विक्रमान पुरा विक्रा के माध्यम सं, को भी **रू** (निदेशक तथा गारेटर) 24/4, मानसरोवर, मेरव अ9.82,066/— (रुपये नित्यानके लाख बयासी हजार छियासके अ.स. प्रवेश – 250002; मात्र) की एक राशि का भुगतान करने के लिये कहा जाता जो कि 30.06.2024 के अनुसार देय राशि है (इसमें 30.06.202 तृतीय तल, टॉवर-ए, विहान गैलेक्सी हल्दोनी मोड, कुलेसरा, ग्रेटर नोएडा, इंजीनियर्स एन्वलेव के पास, कुलेसरा, गौतम बुद्ध सावधि ऋण (ईसीजीएलएस) के संदर्भ में 01.07.2023 से अंति

भुगतान की तिथि तक संपूर्ण भावी ब्याज और अन्य सभी शुल्क

अनुसूची 1. प्रेषिती संख्या 1 के वाहनों को छोड़कर संपूर्ण वर्तमान और मविष्य की चालू परिसंपत्तियां और चल–अच रिसंपत्तियां आवासीय भिम और भवन के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 352 10 वर्ग गज अर्थात 294 51 व 2 जानाता मून जार पर्पा थे पाना पर मां पर का आहे. मीटर है और जिसकी संपत्ति संख्या 42/3 नई संख्या 276 है और जो मैसर्स एनके वेस्त प्राइटेन लिमिटेड से पर मानसरोवर, मेरठ में स्थित है, जो उस पर स्थित समी भवनों और संरचनाओं, किक्सवर्स, किटिंग्स और

सूचना, सूचना—प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हो तथा वे सूचना में उत्लिखित अपेक्षाओं को पूर्ण करें. इस हेतु वैकल्पिक उप किये जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणधारकों / दृष्टिखंबककर्ता/बंधककर्ता तथा / अथवा उनके गारंटरों (जहाँ कहीं भी लागू ह को सलाह है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशियों का भुगतान कर वे ागतान करने में विफल रहने पर, इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपराँत, वित्तीय परिसंपत्तियों प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्ता का ताथ के 60 दिवसा के समापन के उपराँत, वित्तीय परिसंपतियाँ प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम 2002 के अनुसार, अग्र कार्यक्रम संर किंग्रे जायेंगे।

संयंत्रों व मशीनरी जो वर्तमान और भविष्य दोनों कालों में पृथ्वी से जुड़ी हैं या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज

मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : प्लाट#३, मारूति ज्वाइंट वैंचर कॉम्पलैक्स

फोनः 0124-2341218, 2340806, फैक्सः 0124-2340692, ई-मेलः admin@machino.com, वेबसाइटः www.machino.com

सीआईएनः एल25209एचआर2003पीएलसी035034 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

*		तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त
क्र. सं.	विवरण	30 जून, 2024	31 मार्च, 2024	30 जून, 2023
٠		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल राजस्व (शुद्ध)	9,515.95	33,773.93	8,854.16
2	कर पूर्व शुद्ध लाभ	234.06	524.33	124.61
3	करों और विशिष्ट मदों के पश्चात शुद्ध लाम	139.72	369.47	77.15
4	कुल समग्र आय (कर पश्चात)	139.72	363.51	77.15
5	प्रवत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/— प्रत्येक)	613.68	613.68	613.68
6	आरक्षित निधि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार*	~	3,866.53	~
7	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) विशिष्ट मदों से पूर्व (ए) मूल ईपीएस (रु.) (बी) तरल ईपीएस (रु.) (ऑकित मूल्य रु. 10 /—प्रत्येक)	2.28 2.28	6.02 6.02	1.26 1.26
8	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) विशिष्ट मर्वो के पश्चात (ए) मूल ईपीएस (रू.) (बी) तरल ईपीएस (रू.) (अकित मृत्य रू. 10./—प्रत्येक)	2.28 2.28	6.02 6.02	1.26 1.26

*31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधि ह. 3,503.02 लाख थी।

30 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षप समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और निदेशक मंडल द्वारा 24 जुलाई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में रिकार्ड पर ले लिए गए थे। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षिकों ने उपरोक्त परिणामों की

ऊपर सेबी (सूचीबृद्ध प्रतिबद्धताएँ और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 वं तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 30 जुन, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट (www.machino.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसा

हिते मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेर

आदित्य जिंदल दिनांक : 24 जुलाई, 2024 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशव

प्रारूप संख्या आईएनसी-26 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के निय

30 के अनुसरण में 1 कंपनी का पंजीकत कार्योलय एक राज्य से दसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधार (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नेयम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए)के मामले म जेस्टकेयर फार्मा (ओ. पी. सी.) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय

'आर जेड एच-730 गली नंबर-5 राज नगर

दिल्ली'' में स्थित है, के मामले में

...याचिकाकत आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे) से हरियाणा राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 24/07/2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित तिशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए 21 पोर्टल(www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उछिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निर्देशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के . भीतर बी-2 विंग, दसरा फ्लोर, पं. दीनदयाल अंतोदया भवन, सीजीओ कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-1 10003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सपर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नेलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेंगे ''आर.जेड. एच-730, गली नंबर-5, राज नगर, पालम कॉलोनी, साउथ वेस्ट दिल्ली-110077, दिल्ली'' कृते एवं हित

जेस्टकेयर फार्मा (ओ. पी. सी.) प्राइवेट लिमिटेड दिनांक २४ जुलाई, २०२४ स्थान - नई दिली एम.नं.-02749484 PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificate(s for Certificate No. 82463 with Distinctive numbers 33206116-33206175 Equity Shares Nos. 60 shares with folio number 80017341 of Shakuntala Varma jointly with Shivendra Prasad has / have been lost or mislaid and the indersigned has / have applied to the Company o issue duplicate Certificate(s) for the said hares. Any person who has any claim in espect of the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited. Selenium

ower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financia

District Hyderabad - 500032 within one month

rom this date else the company will proceed t

ssue duplicate Certificate(s)

Date: 25.07.2024 Names of Applican Shivendra Prasad



Business Standard

Insight Out

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI 🖈

बल्लभगढ़ शाखा: आकाश सिनेमा कॉम्प्लेक्स, मोहन रोड तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, फोन: 0129-2244389, ई–मेल: Ballabgarh.chandigarah@bankofindia.cp.in

[देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, २००२ के नियम ८ के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के तहत निम्न उल्लेखित उधारकर्ताओं/गारंटर को मांग सूचना नीचे दिए गए खाते के विरुद्ध वर्णित दिनांकों पर जारी कि थी औ उन्हें उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का आह्वान किया गया।

उधारकर्ता/मालिक/गारंटर राशि चकाने में विफल रहा है. एतद द्वारा उधारकर्ता/मालिक/गारंटर और आम जनता को सचित किया जाता है वि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम धारा 13 (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न खाते के विरुद्ध वर्णित दिनांकों पर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी

उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाया जा सके। उधारकर्ता,गारंटर | मांग सूचना | कब्जे की | मांग सूचना अनुसार

बंधककर्ता का नाम	की दिनांक	दिनांक	बकाया राशि	पारसपात्तया का विवरण
उधारकर्ता(ओं <u>)</u> :	18.12.2023	23.07.2024	रू.11,41,336.77/−+	संपत्ति धारक एमसीएफ सं. 79, मापक
ो मदन लाल गर्ग पुत्र श्री	ब्याज और उस फ	र ब्याज यानी (1) गृह	ऋण 670275110000021	5 1वर्ग गज, ईस्ट चावला कॉलोनी, तहसील
मंगू राम	@ 11.15 % वारि	र्वेक (२) गृह ऋण ६७७	0275110000037@	बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा
.00 % वार्षिक (3) नकद ऋण 670230110000083 @ 11.85 % वार्षिक मासिक दर और बैंक । किएगए सभी लागतो, प्रभारों और शुल्कों के साथ समायोजित				12 1004 श्री मदन लाल गर्ग पुत्र श्री मंगू राम
। किए गए सभा लागता, प्रभारा ३	गर शुल्का क साथ र	समायााजत		के नाम मौजुद का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग।
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		c		

सीमांकन: उत्तर: अन्य; **पश्चिम:** गली; **पूर्व:** मकान सं.ई–80, **दक्षिण:** मकान सं. एमसीएफ–78

INDIAN ENERGY EXCHANGE

INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

CIN: L74999DL2007PLC277039, Website: www.iexindia.com, Ph. No.: +91 -0120-464 8100 Fax No.: +91 -0120-464 8115

Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2024

		Consolidated	l	Standalone		
	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
Particulais	30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024	30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024
	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	15,447.01	12,736.81	55,084.84	15,434.59	12,727.56	55,078.16
Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	12,791.97	10,080.67	46,614.33	12,491.14	9,909.33	45,684.90
Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	12,791.97	10,080.67	46,614.33	12,491.14	9,909.33	45,684.90
Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	9,644.02	7,582.98	35,078.26	9,342.32	7,413.91	34,144.06
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9,610.03	7,562.83	35,099.93	9,308.33	7,393.76	34,164.66
Equity Share Capital	8,908.71	8,908.71	8,908.71	8,908.71	8,908.71	8,908.71
Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	88,308.42	71,000.89	88,308.42	85,910.00	69,537.74	85,910.00
Earnings Per Share* (of Re. 1/- each)						
- Basic:	1.08	0.85	3.94	1.05	0.83	3.84
- Diluted:	1.08	0.85	3.94	1.05	0.83	3.84
	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional items) Net Profit for the period after tax (after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share* (of Re. 1/- each) - Basic:		Particulars Quarter Ended 30-06-2024 30-06-2023 Unaudited 15,447.01 12,736.81 12,791.97 10,080.67 Net Profit for the period (before tax (after Exceptional items) 12,791.97 10,080.67 Net Profit for the period after tax (after Exceptional items) 9,644.02 7,582.98 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital 8,908.71 8,908.71 8,908.71 Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share* (of Re. 1/- each) 1.08 0.85 - Diluted: 1.08 0.85 0.85 1.08 0.85 1.0	Quarter Ended Year Ended 30-06-2024 30-06-2023 31-03-2024 Unaudited Unaudite	Quarter Ended Year Ended Quarter Ended 30-06-2024 30-08-204 3	Quarter Ended Ended Quarter Ended Quarter Ended Ende

The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Unaudited Financials Results for the Quarter ended 30 June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd (i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of the Company i.e. www.iexindia.com. The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on 24 July 2024.

Place: Noida Date: 24 July 2024

For Indian Energy Exchange Limited

Satyanarayan Goel Chairman & Managing Director

DIN: 02294069

(This is only an advertisement for information purpose and not a prospectus announcement. Not for Release or Distribution in the United States.) **ADDENDUM: NOTICE TO INVESTORS**

Our Company was originally formed as a partnership firm in the name and style of "M/s. Aprameya Engineering" pursuant to a deed of partnership dated September 05, 2003, registered as on August 13, 2004 vide

Registration certificate issued by Registrar of Firms, Ahmedabad City, Ahmedabad having Registered No. GUJ/AMS/36352 under the provisions of the Indian Partnership Act, 1932. Subsequently, our Company was incorporated pursuant to a certificate of incorporation dated December 28, 2021 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre following the conversion of the partnership firm "M/s. Aprameya Engineering" to a Private Limited Company, Further, pursuant to special resolution passed by the shareholders of the Company at the Extra Ordinary General Meeting, held on April 22, 2022, our Company was converted into a Public Limited Company and consequently the name of our Company was changed from "Aprameya Engineering Private Limited" to "Aprameya Engineering Limited" vide a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion dated May 12, 2022, issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat bearing CIN: U51909GJ2021PLC128294..

Registered Office: 908, 9th Floor, Venus Atlantis Corporate Park, Anandnagar, Prahladnagar, Ahmedabad, Gujarat-380015 India. Tel No: +91-079-40068827; E-mail: cs@aelhealth.com; Website: www.aelhealth.com; Contact Person: Sanjoly Alkesh Jalan, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: SAURABH KISHORBHAI BHATT, CHETAN MOHAN JOSHI, POOJA SAURABH BHATT AND ARCHANA CHETAN JOSHI

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 50,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF APRAMEYA ENGINEERING LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [♠] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,54,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 47,86,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (●) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.47% AND 25.14% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

BID/ISSUE PROGRAM **BID/ ISSUE OPENS ON: THURSDAY, JULY 25, 2024**

BID/ ISSUE CLOSES ON: MONDAY, JULY 29, 2024

ADDENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS

This Addedum should be read with Red Herring Prospectus dated July 18, 2024 filed with Registrar of Companies, Gujarat, Ahmedabad. The below details shall be added under heading "BASIS OF ALLOTMENT" under section titled "Issue Procedure" on page 271 of the Red Herring Prospectus -

• On T Day, RTA To validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details. • RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / FC and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications

• RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/ comments.

For the details of the Process related to generating list of allottees refer the page 274 of the Red Herring Prospectus. All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus and the Pre-Issue & Price Band Advertisement.

> On behalf of Board of Directors **Aprameya Engineering Limited**

Sanjoly Alkesh Jalan, **Company Secretary and Compliance Officer**

Disclaimer: Aprameya Engineering Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated July 18, 2024 has been filed with the Registrar of Companies, Gujarat, Ahmedabad, and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus.

Flow of Events from the closure of Bidding period (T DAY) Till Allotment:

with third party account for rejection. • Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.

• Post rejection, the RTA submits the basis of allotment with the Designated Stock Exchange (DSE).

• The DSE, post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.

Place: Ahmedabad, Gujarat

Date: July 24, 2024